



1-The Reserve Bank of India (RBI) retained the FY22 projection for real GDP growth at 9.5 per cent.

भारतीय रिजर्व बैंक ने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के लिए वित्त वर्ष **2022** के अनुमान को **9.5** प्रतिशत पर बरकरार रखा।

2-The Reserve Bank of India (RBI) retained its key short-term lending rates during the October monetary policy review of FY22.

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष **2022** की अक्टूबर मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान अपनी प्रमुख अल्पकालिक उधार दरों को बरकरार रखा।

3-Darshana Jardosh, Minister of State for Railways and Textiles dedicated new version of 'Mile Sur Mera Tumhara' song to the Nation through video conferencing.

रेल और कपड़ा राज्य मंत्री दर्शन जरदोश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 'मिले सुर मेरा तुम्हारा' गीत का नया संस्करण राष्ट्र को समर्पित किया।

4-The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.

नार्वेजियन नोबेल समिति ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को **2021** का नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया है, जो लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए एक पूर्व शर्त है।

5-Department of Food and Public Distribution has developed an application ecosystem, which allows the integration of procurement portals of all state governments having Minimum Threshold Parameters (MTPs) for monitoring and strategic decision making.

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने एक एप्लीकेशन इकोसिस्टम विकसित किया है, जो निगरानी और रणनीतिक फैसला लेने के लिए न्यूनतम थ्रेशहोल्ड पैरामीटर (एमटीपी) की व्यवस्था वाले सभी राज्यों के खरीद पोर्टल के एकीकरण में मदद करेगा।

6-The tripartite Concession Agreement was signed between National Mission for Clean Ganga (NMCG), Bihar Urban Infrastructure Development Corporation Ltd (BUIDCO) and M/s. Adani Enterprises Limited in JV with Organica Technológiák Zrt., Hungary, for development of Sewage Treatment Plants (STPs) for Bhagalpur on Hybrid Annuity PPP mode.

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी), बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बीयूआईडीसीओ) और मैसर्स अडाणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने हंगरी की ऑर्गेनिक टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम में हाइब्रिड वार्षिकी पीपीपी मोड पर भागलपुर के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के विकास के लिए त्रिपक्षीय रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

7-NTPC in pact with Électricité de France S.A. for cooperation in international power sector.

एनटीपीसी ने अंतरराष्ट्रीय बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए 'इलेक्ट्रिसिटी डी फ्रांस एस.ए.' के साथ समझौता किया।

8-Dr Sanjeev Balyan, Union Minister of State Fisheries, Animal Husbandry & Dairying unveiled the National Digital Livestock Mission Blueprint at NDDB, at Anand.

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉ संजीव बालियान ने आणंद स्थित एनडीडीबी में राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन ब्लूप्रिंट का अनावरण किया।

9-Minister for Environment, Forest and Climate Change, Bhupender Yadav inaugurated workshop on Forests, Biodiversity and Climate Change in Srinagar.

केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने श्रीनगर में वन, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर कार्यशाला का उद्घाटन किया।

10-The PSA Oxygen Plant at NTPC Dadri and NTPC Bogaingaon have been inaugurated.

एनटीपीसी दादरी और एनटीपीसी बोंगईगांव में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया।

11-P.L. Haranadh took over the post of Chairman of Paradip Port Trust (PPT).

पी.एल. हरनाध ने पारादीप पोर्ट ट्रस्ट (पीपीटी) के अध्यक्ष का पद संभाल लिया है।

12-The 2021 Nobel Prize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and passionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.”

उपन्यासकार अब्दुलराजाक गुरनाह को "उपनिवेशवाद के प्रभावों और संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थी के भाग्य के उनके अडिग और करुणामय प्रवेश के लिए" साहित्य में **2021** के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।



Mahendra